

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 29, शक 1941

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2019

क्र. एफ 3-20-2019-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 13 नवम्बर 2019 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची—“एक”

(1) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बूटासिंह इवने, उपसचिव.

अनुसूची "दो"

निःशक्तजनों के लिये पदों का चिन्हांकन

विभाग : लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (06 प्रतिशत के मान से)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग (6+7+8+9)	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रतिशत)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रतिशत)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित हैं, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी (1.5 प्रतिशत)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रतिशत)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
द्वितीय	सहायक यंत्री (सिविल)	121	121	07	02 (कम दृष्टि)	02 (कम सुनने वाले)	02	01	07	
	सहायक यंत्री (वि/यॉ)	31	31	02	0	01 (कम सुनने वाले)	01	0	02	
	सहायक विधि अधिकारी	01	01	0	0	0	0	0	0	
तृतीय	शीघ्र लेखक ग्रेड-3	15	15	01	0	0	01	0	01	
	सहायक ग्रेड-3	422	422	25	06	07	06	06	25	
	सहायक मान चित्रकार	33	33	02	0	01	01	0	02	
	अनुरेखक	11	11	01	0	01	0	0	01	
	उप यंत्री(सिविल)	877	877	53	14 (कम दृष्टि)	13 (कम सुनने वाले)	13	13	53	
	उप यंत्री(वि/यॉ)	237	237	14	03 (कम दृष्टि)	04 (कम सुनने वाले)	03	04	14	
	स्टेनोटाइपिस्ट	05	05	0	0	0	0	0	0	
एयरकम्प्रेसर आपरेटर	15	15	01	0	01 (कम सुनने वाले)	0	0	01		

	मैकेनिक	14	14	01	0	01 (कम सुनने वाले)	0	0	01	
	इलेक्ट्रिकल वायरमेन	02	02	0	0	0	0	0	0	
	हैण्डपम्प तकनीशियन	913	913	55	0	55 (कम सुनने वाले)	0	0	55	
	सहायक रसायनज्ञ	05	05	0	0	0	0	0	0	
	इलेक्ट्रिशियन	03	03	0	0	0	0	0	0	
	प्रयोगशाला सहायक	02	02	0	0	0	0	0	0	
	रसायनज्ञ	12	12	01	0	01	0	0	01	
	रिंग ऑपरेटर	08	08	0	0	0	0	0	0	
	ड्रिलर	10	10	0	0	0	0	0	0	
	फिल्टर इन्सपेक्टर /रसायनज्ञ	01	01	0	0	0	0	0	0	
चतुर्थ	भृत्य	489	489	29	08	07	07	07	29	
	सफाई कामगार	199	199	12	03	03	03	03	12	
	स्वीपर	04	04	0	0	0	0	0	0	